



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1712]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2011/भाद्र 17, 1933

No. 1712]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2011/BHADRA 17, 1933

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2011

का.आ. 2050(अ).—जबकि आवेदक मैसर्स जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड जिनका पंजीकृत कार्यालय स्किप हाऊस, 25/1, म्यूजियम रोड, बंगलौर-560025 में है, ने जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जेनरेटर स्विचयार्ड से रायपुर, छत्तीसगढ़ में पावरग्रिड पूर्ण स्टेशन तक अंतर-राज्य समर्पित 400 केवी डी/सी क्वाड लाईन एसीएसआर मूस (क्वाड बंडलिंग) बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने पत्र सं. 11/2/2010-पीजी के द्वारा 8-11-2010 को जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जेनरेटर स्विचयार्ड से रायपुर, छत्तीसगढ़ में पावरग्रिड पूर्ण स्टेशन तक समर्पित 400 केवी डी/सी क्वाड लाईन एसीएसआर मूस (क्वाड बंडलिंग) ओवरहेड लाइन को बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत मै. जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया था।

और जबकि, आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत वे सभी शक्तियां उसे प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित करने अथवा कार्यों के लिए स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनों तथा खंभे लगाने के संबंध में, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं। स्कीम के अंतर्गत पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों में से, उन पर से, आस-पास से तथा बीच से होकर गुजरेंगी :

राज्य : छत्तीसगढ़

जिला : रायपुर

तहसील : तिलदा

गाँव : भाटपारा, रायखेड़ा, मुरां बातखेड़ा, सोनतरा, खापरी, मडौ,

जंजगिरा, कोटा, किवा।

3386 GI/2011

तहसील : धरसीवा

गाँव : महुआगांव, मालोड, कुरुद, रायता, कुकेरा, कापसादा, देवरी, कुरां, भेहसमूंडा, पांदरभट्टा, मुरां, कुम्ही, भिराभरी, पीरदा।

जिला : दुर्ग

तहसील : बेरला

गाँव : धाबा, नया धाबा, चंडी, सिधोट, नूनारा, गडमेरा, घटिया कलां।

तहसील : धमधा

गाँव : गोबाडा, खमलाराई, गोंडगिरी, पहरा, घटिया खुर्द, शिवपुरी, खपरी, मुदपाड, पंड, सेमरिया, पंदमुडी, कोकडी, हरदी, नंदिनी, खूंदनी, पथरिया, मेडेसेरा, कोरिया, हसदा।

इसलिए, अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण के लिए, अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों हेतु उपर्युक्त उल्लिखित संस्थापना के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन, सरकार द्वारा स्थापित या देख-रेख या इस प्रकार स्थापित या देख-रेख किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनों और पोस्ट लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास जो शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों को आवेदक को प्रदान करता है, अर्थात् :-

- (i) अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है;
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व, संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी ;
- (iii) आवेदक को पारेषण, ओ एंड एम, खुली पहुँच आदि के संबंध में उपर्युक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

- (iv) आवेदक को छत्तीसगढ़ में जीएसएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जेनरेटर स्विचयार्ड से रायपुर, छत्तीसगढ़ में पावरग्रिड मूलिंग स्टेशन तक समर्पित 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन एसीएसआर मूस (क्वाड बंडलिंग) को बिछाने का श्रमत्व सौंपा गया है। इस लाइन का ब्यौरा 25-9-2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली की अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा अनुपालन किए जाने के अधीन है।

[फा. सं. 11/11/2011-पीजे]

ए. ए. ताज़िर, निदेशक

MINISTRY OF POWER ORDER

New Delhi, the 8th September, 2011

S.O. 2050(E).—Whereas M/s. GMR Chattisgarh Energy Limited, the applicant with its Registered Office at Skip House, 25/1, Museum Road, Bangalore 560025, has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of dedicated 400 kV D/c line ACSR Moose (Quad bundling) from GMR Chattisgarh Energy Private Limited generator switchyard to PowerGrid Pooling Station at Raipur in Chattisgarh.

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/2/2010-PG, dated 8-11-2010 had granted to M/s. GMR Chattisgarh Energy Limited, approval under section 68 of the Electricity Act, 2003 for laying overhead transmission line for construction of dedicated 400 kV D/c line ACSR Moose (Quad bundling) from GMR Chattisgarh Energy Private Limited generator switchyard to PowerGrid Pooling Station at Raipur in Chattisgarh.

And whereas the Applicant has now requested to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained for the works. The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities :—

State : Chattisgarh

District : Raipur

Tehsil : Tilda

Villages : Bhatapara, Raikhera, Murra Batkhera, Sontara, Khapri, Marhi, Janjira, Kota, Keewa.

Tehsil : Dharsiwa

Villages : Mahuagaon, Malaud, Kurud, Raita, Kukera, Kapasada, Devri, Kurra, Bhaismunda, Pandarbhatta, Murra, Kurnhu, Bhairbhori, Pirda.

District : Durg

Tehsil : Berla

Villages : Dhaba, Naya Dhaba, Chandi, Silghot, Narnara, Gadamor, Ghatiya Kalan.

Tehsil : Dhamda

Villages : Gobda, Khamlarai, Gondgiri, Pahra, Ghatiya Khurd, Shivpuri, Khapri, Mudpar, Pand, Semariya, Pandmurdi, Kokdi, Hardi, Nandidni, Khundani, Pathariya, Medesara, Koriya, Hasada.

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under Section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely :—

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the Applicant shall have to follow regulations / codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc;
- (iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility for construction of dedicated 400 kV D/c line ACSR Moose (Quad bundling) from GMR Chattisgarh Energy Private Limited generator switchyard to PowerGrid Pooling Station at Raipur in Chattisgarh. The details of the works are published in the Gazette of India of 25-9-2010.
- (v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Applicant to the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F.No. 11/11/2011-PG]

A. A. TAZIR, Director